



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

18 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 805 राँची, गुरुवार,

10 अक्टूबर, 2019 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
अधिसूचना

25 सितम्बर, 2019

**संख्या-14/जा०नि०-03-03/2019 का० 7775--** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के विभाग के पत्रांक-12817, दिनांक-17.11.2012 द्वारा झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए ) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) की समेकित सूची परिचारित की गई है, जिसमें पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के क्रमांक-06 पर “गद्दी” अंकित है।

संकल्प सं०-6789, दिनांक-28.08.2019 द्वारा ग्वाला (मुस्लिम) को राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक 06 पर “गद्दी” के साथ समावेशित किया गया है।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची ने अपने पत्रांक-जाति-134/2018-316/पि०, दिनांक-13.08.2019 द्वारा “ग्वाला (मुस्लिम)” का अंग्रेजी हिज्जे "Gwala (Muslim)" अंकित किया जाना प्रतिवेदित किया है। अतः पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-06 में गद्दी के साथ दर्ज ग्वाला (मुस्लिम) जाति का अंग्रेजी रूप "Gwala (Muslim)" रूप में स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अरुण कुमार सिन्हा,**  
सरकार के अवर सचिव।

-----